


शशुदरे जनूय बाइबले
उपहार

यीशु के जरिये आंधर के चंगाई



लखिछेने: Edward Hughes

द्वारा चत्रति: Janie Forest
Alastair Paterson

अभयिाजति: Ruth Klassen


अनुवादति: Sonu Rahi

द्वारा उत्पादति: Bible for Children
www.M1914.org


©2025 Bible for Children, Inc.

लाइसन्स: आपनार काछे एह गल्पटि कर्पा वा प्ररनिट करार अथकार आछे,
यतक्यण ना आपनरि एटि करबने ना।

बरतिमाई यरीहो के सडक के किनारे बैठल एगो आंधर
अदमी हलक। उ भीख मागते हलक। जखनी दयालु लोगबन
उधर से जा हलन त ओकरा एगो सिक्का चाहे कुच्छो खाय
लागी दे हलन। बरतिमाई काम न कर सकऽ हलन, काहेकी उ
आंधर हलक। उ खाली भीखे मांग सकऽ हलक।



एक दिन राजमार्ग पर भीड़ हलक। बरतिमाई ढेर मानी गोड़ के चले के आवाज सुनलक। कुछ तो जरूर बात हल। जल्दिये आंधर आदमी जान गेलक कि हूँआ का होबित हलक। नासरत के यीशु शहर में हलन। भीड़ के भीड़ यीशु के देखे आउर उनखा सुने लागी जामा हो गेलन।



3


बरतिमाई काहे चिल्लाईलक? "यीशु दाऊद के संतान, हमरा पर दया करऽ!" उ काहे सोंचलक कि यीशु ओकर मदत कर

सकऽ हथन? सायद उ सुनलक हल, कि कइसे यीशु दूसरा के चंगा करलन हल। हूँआ पर कुच्छ आंधर, कुच्छ अपंग, कुच्छ गोंगा, आउर कुच्छ बहिरा हलक, जइसन ओहू हलक। "दाऊद की संतान, हमरा पर दया करऽ बरतिमाई फिन कस के चिल्लाईलक।" ओकर अवाज एगो आसा के साथ गुंजित हल।




4

बरतिमाई के एगो बात के विस्वास हलक। जदी ओकर अबही मदत न मिलतई, त ओकरा आउर मोका कहियो न मिल सकऽ हे। सायद यीशु फिनो उ रस्ता से कहियो न आ सकऽ हलन।




5

बरतिमाई के यीशु भीर पहुँचे ला हलक। बाकि लोगबन हट न रहल हल। "अस्स्सस!" ओखनी कहलन आउर उ ओकरा शांत रहे के चेतौनी तक देलन।




6

बाकि बरतिमाई अब चुप न हलन। उ और कस के चिल्लाय लगलन। अचानक यीशु रुक गेलन! सुनलन! आउर आंधर आदमी के अपना भीर लाबे लागी कहलन! लोगबन बरतिमाई के कहलन, "खुश रहऽ" उठऽ उ तोर बोलौले हथन।




7

अपन वस्त्र के एक तरफ फेंक के, बरतिमाई उठलक आउर यीशु भीर अईलक।




8

यीशु पुछलन, "हमरा से तूं का चाहऽ हऽ कि हम तोरा लागी करूं?" तोहर जबाब का है? का तूं ढेर मानी पैसा चाहे बढिया कपड़ा मांगतऽ बरतिमाई का चाहऽ हलक?




9

न, आंधर बरतिमाई सोना या बढिया कपड़ा यीशु से न मंगलक। तूं अपने जानऽ ह कि उ का मांगे ला चाहित होत।




10

प्रभु हमरा हमर "अपन रोशनी दऽ" बरतिमाई देखल चाहित हलक। उ पेड़बन आउर चिरैयन आउर परमेश्वर के बनाबल सभे सुंदरता के देखे ला चाहित हलक। उ एही लागी देखे लागी चाहित हलक, कि उ खुद के देखभाल कर सकई आउर भिखारी न रहई।



11

तऽ यीशु बरतिमाई से कहलन, "अपन रोशनी ले लऽ, तोहर विश्वास तोरा चंगा कैलक हे।"



12

तुरंते उ अपन रोशनी प्राप्त कैलक, उ कहते रहलक कि "परमेश्वर अद्भुत हथन!" उ हमरा चंगा कैलन हे ई बरतिमाई लागी एगो अद्भुत घड़ी हलक।



13

सभे लोगबन, जखनी एकरा देखलन, परमेश्वर के स्तुति कैलन। एक बार फिन से, उ परमेश्वर के बेटा के अद्भुत शक्ति के देखलन हल। यीशु एगो गरीब आंधर भिखारी के रोशनी देलन हल।



14

यीशु के जरिये आंधर के चंगाई

ঈশ্বররে বাক্য, বাইবেলে থাকে একটা গল্প,

পাওয়া যায়

মরকুস 10, লুকা 18 যুহুনা 9

“তোমার শবদরে প্রবশেদবার আলো দেয়া”
গীতসংহতি 119:130

15

50

60

16



এই বাইবেলের গল্প আমাদেরকে আমাদের বসিময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদের তৈরি করছেন এবং যনি চান আপনাকে জানুন।

ঈশ্বর জানে আমরা খারাপ কাজ করছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপের
শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসেন তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপের জন্য শাস্তি পতে
পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন! আপনি যদি
যীশুতে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আপনার পাপের ক্ষমা চান, তিনি তা
করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপের জন্য
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবিত হয়েছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্য বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বররে সাথে কথা বলুন! জন 3:16

17